



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल।

Email ID :- ee.rwdpakridayal@gmail.com

Mob. No. :- 8986915941



पत्रांक :- ५५६

पकड़ीदयाल,

दिनांक :- ०५-०४-२५

प्रेषक,

ई० मनोज कुमार तिवारी,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

सेवा में,

Branch Manager,
Bank of Baroda,
Branch Banjaria,

विषय :- Fixed Deposit को सत्यापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि M/s Star Construction, Add- Balua Tal, Nagar Thana Motihari के नाम से निर्गत Fixed Deposit जो एकरारनामा हेतु अग्रधन के रूप में इस कार्यालय में जमा किये है। जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त किया गया है। जिसकी सत्यापन कराने हेतु भेजा जा रहा है।

अनुरोध करना है कि उक्त F.D को प्रतिज्ञिप्त करने वाले अधिकारी के नाम एवं कर्मचारी कोड के साथ सत्यापित करने की कृपा की जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। F.D का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	Fixed Deposit Account No.	निर्गत तिथि	परिपक्वता तिथि	राशि
1	19340300006694	01.03.2025	05.04.2026	8,50,000.00
Total				8,50,000.00

अनु०:- F.D की छायाप्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल।

5/3/25

5/3/25



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

STAR CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	19340300006694
BALUA TAL NAGAR THANA MOTIHARI 845401 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0103253302
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	4HA085236
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	19340200000001
		शाखा का नाम/Branch Name	BANJARIA BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AEBFS5983H	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	AUTHORISED SIGNATORY		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
850000	01-03-2025	7.30	0 Months 400 Days	05-04-2026	920166

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज i. यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज: i. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड रेट से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ii. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड रेट से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause:- i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause:- i). Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledge to Pannur in Executive Engineer
RWD Pakar'dayal.





Mob. No. :- 8986915941

दिनांक :- 05.03.25

Scanned with CamScanner



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

STAR CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12290300035504
BALUA TAL.		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0103255852
NAGAR THANA MOTIHARI		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	4HA085236
845401		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12290200000753
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	MOTIHARI BIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD (RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AEBFS5983H	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	AUTHORISED SIGNATORY		
लिप्पन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1460000	01-03-2025	7.30	0 Months 400 Days	05-04-2026	1580520

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. खाता दर प्रति वर्ष में दर्शाया है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज। i) यदि अवधि अनुबंध में दिए गए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण 30 सितंबर पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii) यदि अवधि अनुबंध में दिए गए 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय समाप्ति पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप दलगत हो अवधि के लिए किया जाएगा। 3. खाता 15G के अंतर्गत निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दलगत निधिगत सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15G के 15 अंश (15 अंश/पोर्ट शीट) हो, प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा खाता पर कर कटौती की जाएगी। 5. खाता पर कटौती योग्य नगरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. प्रीमच्यूर विलड्रॉल क्लॉज। i) यदि 1 करोड़ से कम की जमा राशि को समयपूर्व वंद करने पर 1% वंद का प्रावधान है अर्थात् देय जमा राशि के बजाय होने की तिथि पर लागू कार्टे दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। ii) यदि 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व वंद करने पर 1.5% वंद का प्रावधान है अर्थात् देय जमा राशि पर देय से रही जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्टे दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिनों पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. निर धारिता जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause. i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause. i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty, i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty, i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of NON-CALLABLE DEPOSIT - Premature withdrawal not allowed.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

pledged to
E&RWD Pakrida 799
Dt:- 01/08/2025

